



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 530] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 1978/अग्रहायण 10, 1900
No. 530] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 1978/AGRAHAYANA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1978

का०प्रा० 690 (अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21)
की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत-
द्वारा श्री के० अशोक कीनी की कृष्णा ग्रामीण बैंक सुलबर्गा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा
1-12-1978 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि
के रूप में निर्धारित करती है जिसमें उक्त के अशोक कीनी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 1-8/78-आर० आर० बी०]

सी. आर. विष्वास उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1978

S.O. 690(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri K. Ashok Kini as the Chairman of the Krishna Grammeena Bank, Gulbarga and specifies the period commencing on the 1st December, 1978 and ending with the 30th June, 1979 as the period for which the said Shri K. Ashok Kini shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-8/77-RRB]

C. R. BISWAS, Dy. Secy.

का० धा० 691 (प्र):—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पर 1 दिसम्बर, 1978 से कर्नाटक राज्य में कृष्णा ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कर्नाटक राज्य में गुलबर्गा जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्य करेगा।

[संख्या एक० 1-8/77-प्रार. प्रार. बी]

S.O. 691 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by the State Bank of India, establishes, with effect from the 1st December, 1978, a Regional Rural Bank in the State of Karnataka under the name of Krishna Grammeena Bank, which shall operate within the local limits of the District of Gulbarga in the State of Karnataka.

[No. F. 1-8/77-RRB]

का० धा० 692 (प्र):—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों के लिये, कृष्णा ग्रामीण बैंक, को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक 1-8/77-प्रार. प्रार. बी.]

S.O. 692 (E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Krishna Grammeena Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-8/77-RRB]

क्र० आ० 693 (अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, जिसके द्वारा कृष्णा ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया गया है, के परामर्श से गुलबर्गा जिले में गुलबर्गा को उस स्थान के रूप में निर्दिष्ट करती है जहाँ कृष्णा ग्रामीण बैंक अपना कार्यालय स्थापित करेगा।

[संख्या फ० 1-8/77-आर० आर० बी०]

बलदेव सिंह, संयुक्त, सचिव

S.O. 693 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India, by which Krishna Gramseena Bank has been sponsored, specifies Gulbarga in the district Gulbarga as the place where Krishna Gramseena Bank shall have its Head Office.

[No. F. 1-8/77-RRB]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

